

## -प्रेस नोट-

### जनपद-मीरजापुर

दिनांक- 11.10.2021

**थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नन्दूपुर में 03 व्यक्तियों की हत्या कर फेके गए शवों की घटना से सम्बन्धित ₹ 25 हजार का ईनामिया मुख्य आरोपी गिरफ्तार—**

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 14.03.2021 को वाराणसी -चुनार मार्ग पर रात्रि में किसी समय ग्राम नन्दूपुर अदलपुरा थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत सड़क के किनारे 03 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करके शव छिपाने की नियत से फेक दिया गया था। थाना चुनार पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया गया। बिहार प्रान्त, रोहतास जिले के थाना काराकाट (गोडारी) अन्तर्गत ग्राम गोडारी निवासी मृतक राजकुमार के पिता घुघली सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर थाना चुनार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना से सम्बन्धित 06 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा जा चुका है। जिसमें वांछित अभियुक्त उमेश सिंह की गिरफ्तार हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 25,000/- का ईनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एवं सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 11.10.2021 को प्रभारी निरीक्षक चुनार गोपाल जी गुप्ता मय हमराह द्वारा पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त उमेश सिंह उर्फ मुखिया पुत्र विजयनारायण सिंह निवासी देल्हुवा थाना कोचस जनपद रोहतास बिहार को बिठोरी पुलिया के पास से एक अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —**

उमेश सिंह उर्फ मुखिया पुत्र विजयनारायण सिंह निवासी देल्हुवा थाना कोचस जनपद रोहतास बिहार।

**विवरण बरामदगी —**

01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस।

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम—**

- 1-निरी0 गोपाल जी गुप्ता प्रभारी निरीक्षक चुनार, मीरजापुर।
- 2-उ0नि0 उमाशंकर गिरी थाना चुनार, मीरजापुर।
- 3-हे0का0 शशिकान्त यादव थाना चुनार, मीरजापुर।
- 4-हे0का0 राजकमल सिंह थाना चुनार, मीरजापुर।
- 5-का0 सीताराम यादव थाना चुनार, मीरजापुर।

6-का0 देवानन्द सिंह थाना चुनार, मीरजापुर ।

7-का0 अमित सिंह थाना चुनार, मीरजापुर ।

8-का0 प्रमोद यादव थाना चुनार, मीरजापुर ।

